

भारती भवन के नकली किताब छापने वाले प्रेस का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार

Publish Date: Mon, 24 Feb 2020 06:16 AM (IST)



संवाद सूत्र भगवानपुर | भगवानपुर पुलिस ने शराब माफियाओं के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर थान क्षेत्र के

जागरण संवाददाता, हाजीपुर :

औद्योगिक थाना क्षेत्र के धनौती गांव में रविवार को औद्योगिक थाना की पुलिस ने छापामारी कर भारती भवन कंपनी का नकली किताब छापने वाले प्रेस का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने यहां से भारी मात्रा में नकली किताब भी बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने प्रेस के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई की खबर मिलते ही शहर समेत जिले के कई स्थानों के किताब दुकान की शटर धड़ाधड़ गिर गई। छापामारी की खबर की वजह से दिन भर दुकानदार हलकान रहे तथा पल-पल की खबर उक्त स्थल के आसपास से लेते रहे।

इस संबंध में जानकारी देते हुए औद्योगिक थानाध्यक्ष आरके पांडे ने बताया कि रविवार को भारती भवन कंपनी के सेल्स का काम देखने वाले संजीत कुमार ने उन्हें बताया कि उसके कंपनी का नकली किताब इस जिले एवं आसपास के जिले में व्यापक पैमाने पर बिक रहा है तथा इन पुस्तकों की छपाई भी हाजीपुर में की जा रही है। इस बात की पुख्ता सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अपने स्तर से जानकारी इकट्ठी कर थाना क्षेत्र के धनौती गांव स्थित कोयला डीपो के पास संचालित फंडामेंटल प्रेस में धावा बोल दिया। पुलिस की टीम को देखते ही प्रेस के कई स्टाफ मौके से निकल गए लेकिन प्रेस के संचालक को दबोच लिया गया।

इस संबंध में जानकारी देते हुए औद्योगिक थानाध्यक्ष आरके पांडे ने बताया कि रविवार को भारती भवन कंपनी के सेल्स का काम देखने वाले संजीत कुमार ने उन्हें बताया कि उसके कंपनी का नकली किताब इस जिले एवं आसपास के जिले में व्यापक पैमाने पर बिक रहा है तथा इन पुस्तकों की छपाई भी हाजीपुर में की जा रही है। इस बात की पुख्ता सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अपने स्तर से जानकारी इकट्ठी कर थाना क्षेत्र के धनौती गांव स्थित कोयला डीपो के पास संचालित फंडामेंटल प्रेस में धावा बोल दिया। पुलिस की टीम को देखते ही प्रेस के कई स्टाफ मौके से निकल गए लेकिन प्रेस के संचालक को दबोच लिया गया।

Source: <https://www.jagran.com/bihar/vaishali-did-bhandafod-20057255.html>